



दिनांक- 10.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



*कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10/10/2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर अनिल कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने चरखारी बाईपास रोड से मिल्कीपुरा जाने वाले मार्ग पर चोरी की फिराक में योजना बनाते हुये 02 नफर अभियुक्तगणों 1. राहुल पुत्र गुज्जा कुचबंधिया 2. गौतम सिंह उर्फ टिप्पे पुत्र घनश्याम कुचबंधिया निवासीगण चरखारी रोड मु0 सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त राहुल के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त गौतम सिंह उर्फ टिप्पे के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व एक छोटी प्लास्टिक की टॉर्च बरामद हुयी जिसके सम्बन्ध में दोनों अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 546/20 धारा 401 भादवि व बरामद तमंचा व कारतूस के आधार पर अभियुक्त राहुल व गौतम सिंह के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 547/2020 व 548/2020 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. राहुल पुत्र गुज्जा कुचबंधिया
2. गौतम सिंह उर्फ टिप्पे पुत्र घनश्याम कुचबंधिया निवासीगण चरखारी रोड मु0 सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी विवरण:-

अभियुक्त राहुल के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त गौतम सिंह उर्फ टिप्पे के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व एक छोटी प्लास्टिक की टॉर्च

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विनोद सिंह
2. उ0नि0 तनवीर अहमद
3. कां0 मुकेश
4. कां0 अंकित थाना कोत0 महोबा।





दिनांक- 10.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



श्रीनगर पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण पर जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआं में लिप्त अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना श्रीनगर गठित टीम **SI मोहम्मद सुल्तान** मय हमराह कां० कुलदीप कुमार मय आबकारी टीम के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम ननौरा कबूतरा डेरा सेलामाफ थाना श्रीनगर जिला महोबा से **मुश्कान पत्नी अच्छे कबूतरा** को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 35 लीटर कच्ची शराब महुआ नजायज बरामद हुयी, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में **मु०अ०स० 182/20 धारा 60 आबकारी अधि.** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस/आबकारी टीम:-

1. उ०नि० मो० सुल्तान खान 2. कां० कुलदीप कुमार थाना श्रीनगर जनपद महोबा

आबकारी टीम

1. आबकारी निरीक्षक रामकृष्ण चतुर्वेदी 2. का.बृजेश कुमार 3.म.का.संगीता देवी

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

मुश्कान पत्नी अच्छे कबूतरा निवासी- डेरा सेलामाफ थाना श्रीनगर जनपद महोबा।





दिनांक- 10.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 8850/-रु0 का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये गये ई-चालान



आज दिनांक 10.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के**

तहत 70 व्यक्तियों से 8350/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 28 ई-चालान व 01 वाहन से 500/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

इसके साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 5/10/2020 से 11/10/2020 तक मनाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज यातायात प्रभारी उ0नि0 श्री अरविन्द मिश्रा मय टीम के वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया तथा पम्पलेट देकर यातायात के प्रति जागरूक किया गया।





दिनांक- 10.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संवेदनशील जगहों की चेकिंग व लोगों को कोविड-19 के प्रति किया गया

जागरूक



आज दिनांक 10.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/धार्मिक जगहों की चेकिंग एवं कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त करके संवेदनशील जगहों सहित अराजक तत्वों की चेकिंग की गई।

पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगों से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।

